



# हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act 2009)

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176215

DHARAMSHALA, DISTRICT – KANGRA, HIMACHAL PRADESH -176215

## डॉ बाबा साहिब आम्बेडकर राष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता (केवल पंजाबी भाषा में)

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, भारत सरकार के दिल्ली स्थित आम्बेडकर प्रतिष्ठान की ओर से पंजाबी भाषा में अखिल भारतीय डा० आम्बेडकर राष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता, 2017 का आयोजन कर रहा है। इस निबन्ध प्रतियोगिता में देश भर के मान्यता प्राप्त विद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

**निबन्ध प्रतियोगिता का बिषय:** -- डा० भीम राव आम्बेडकर के जीवन एवं चिन्तन के किसी भी पक्ष पर निबन्ध लिखा जा सकता है | लेकिन उनकी जीवनी मात्र को निबन्ध में शामिल नहीं किया जायेगा |

सर्वश्रेष्ठ निबन्धों को नकद पुरस्कार तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जायेगा | निबन्ध भेजने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल, 2017 (वैसाखी) तक है |

### निबन्ध प्रतियोगिता के नियम व शर्तें

प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

1. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा |
2. निबन्ध कम से कम 1500 और अधिक से अधिक 2000 शब्दों तक का होना चाहिए |
3. प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक ही निबन्ध जमा करा सकता है |
4. निबन्ध पंजाबी भाषा में ही लिखा होना चाहिए |
5. निबन्ध जमा करने का अर्थ है कि प्रतिभागी को प्रतियोगिता के नियम स्वीकार्य हैं |
6. आयोजकों को ऐसी प्रविष्टियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, जो इन दिशा-निर्देशों के अनुकूल नहीं होंगे |
7. किसी भी विवाद की स्थिति में डॉ अम्बेडकर पीठ का निर्णय अंतिम और सबको मान्य होगा |
8. सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र तथा ईनाम जीतने वाले प्रतिभागियों को नगद ईनाम एवं प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे |
9. प्रतियोगिता में 10+2, स्नातक, स्नात्कोत्तर, एम०फिल एवं पी०एच०डी० के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं |

10. प्रतिभागियों की कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दो श्रेणियां होंगी | कनिष्ठ श्रेणी में 10+2 के छात्र एवं वरिष्ठ श्रेणी में स्नातक, स्नातकोत्तर, एम०फिल तथा पी०एच०डी० तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं ।
11. प्रत्येक प्रतिभागी को निबन्ध के साथ अपने शिक्षा संस्थान की ओर से यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह स्स्थान का नियमित छात्र है और अमुक शिक्षा संस्थान मान्यता प्राप्त है ।

**नकद पुरस्कार एवं विजेता प्रमाणपत्र**

	<b>वरिष्ठ श्रेणी</b>	<b>कनिष्ठ श्रेणी</b>
प्रथम पुरस्कार	15,000/-	10,000/-
द्वितीय पुरस्कार	10,000/-	5,000/-
तृतीय पुरस्कार	5,000/-	2,500/-

**अंतिम तिथि**

निबन्ध भेजने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल, 2017 (वैसाखी) तक है ।

**सम्पर्क/ निबन्ध भेजने का पता :**

डॉ आम्बेडकर पीठ,  
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय,  
कैंप कार्यालय, नजदीक HPCA क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला  
जिला काँगड़ा (हि०प्र०)-176215  
वेबसाईट [www.cuhimachal.ac.in](http://www.cuhimachal.ac.in)